

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 12.07.2021

थाना कलान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 1.2 लाख रुपये की 02 किलो गांजा सहित 01 मादक पदार्थ तस्करी अतेन्द्र गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर प्रभावी रोकथाम व तस्करी में संलग्न अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण थाना कलान पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

दिनांक 11.07.2021 की शाम करीब 17.00 बजे थाना कलान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वीकेश नॉनवेज होटल के सामने से एक थैले में 2 किग्रा गांजा के साथ 01 अभियुक्त अतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ब्लॉक रोड कस्बा व थाना कलान जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ थाना कलान पर मु0अ0स0 350/20 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

*** गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-***

1. अतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ब्लॉक रोड कस्बा व थाना कलान जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 किग्रा नाजायज गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 1.2 लाख रुपये।)

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 350/20 धारा 8/20 NDPS Act थाना कलान जिला शाहजहाँपुर।

विवरण पूछताछ-

दौराने पूछताछ से ज्ञात हुआ कि यह गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है। जो कि सस्ते दाम पर खुला गांजा व मादक पदार्थ नेपाल व उत्तरांचल के रास्ते लाकर उसको पैक करके मंहगे दामों पर बेच देता है। यह खुले गांजा को बेचने के लिये तैयारी कर रहा था तभी थाना कलान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

***गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:- ***

1.थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह

2.उ0नि0 श्री यादवेन्द्र सिंह

3.का0 2247 सचिन

5.का0 2256 कृष्णकुमार